



भारत का राजपत्र The Gazette of India

आसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खंड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 228]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 1978/अग्रहायण 8, 1900

No. 228] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 1978/AGRAHAYANA 8, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

निर्यात व्यापार नियंत्रण

साप्ताहिक सूचना सं० 77-ई वीसी(पोएन)/78

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1978

विषय :— आयात-नीति 1978-79 ।

सि० सं० 10/2/78-ई-2 :—शीरा और इथाइल अल्कोहल या किसी भी प्रूफ डिग्री की शोधित स्प्रिट, चाहे विकृत की गई हो या न की गई हो, के निर्यात से सम्बन्धित निर्यात (नियंत्रण) आदेश सं० ई(सी) ओ, 1977/एएम(80) दिनांक 29 नवम्बर, 1978 को और ध्यान दिलाया जाता है।

2. निर्यात नीति 1978-79 के पृष्ठ 18 पर खंड-2 में निम्न-लिखित संशोधित किए जाएंगे :—

- (i) क्रम सं० 35, "शीरा" के सामने के कालम 3 में दिए गए विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"निर्यात की अनुमति उस राज्य के उत्पाद शुल्क प्रायुक्त द्वारा जारी किए गए निकासी प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अंतर्गत

दी जाएगी जिसमें निर्यात किए जाने वाले उत्पाद का उत्पादन किया गया है।"

- (ii) क्रम सं० 36 "इथाइल अल्कोहल या किसी भी प्रूफ डिग्री की शोधित स्प्रिट, चाहे विकृत की गई हो या नहीं" के सामने कालम 3 में दिए गए विद्यमान उपबंध के स्थान पर निम्न-लिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"निर्यात की अनुमति उस राज्य के उत्पाद शुल्क प्रायुक्त द्वारा जारी किए गए निकासी प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अंतर्गत दी जाएगी जिसमें निर्यात किए जाने वाले उत्पाद का उत्पादन किया गया है।"

3. उपर्युक्त पैरा 2(i) और 2(ii) में उल्लिखित उत्पादों के निर्यात की अनुमति किसी रियायती अवधि के बिना केवल 31-3-1979 को या इससे पहले किए जाने वाले पोतलवानों के लिए दी जाएगी और 31-3-1979 के बाद किए जाने वाले पोतलवानों के लिए किसी भी निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी चाहे वह 31-3-1979 को या इससे पहले किए गए पक्के सौदे को पूर्ण करने के लिए मांगी गई हो।

का० वें० शोपात्रि
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

**MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND
CO-OPERATION****(Department of Commerce)****EXPORT TRADE CONTROL****PUBLIC NOTICE NO. 77-ETC(PN)/78**

New Delhi, the 29th November, 1978

Subject: Export Policy 1978-79.

F. No. 10/2/78-E. II.—Attention is invited to the Exports (Control) Order No. E(C)O, 1977/AM(80) dated the 29th November, 1978, pertaining to export of Molasses and Ethyl Alcohol or rectified spirit of any proof degree, whether denatured or not.

2. The following amendments shall be made in Section II at page 18 of Export Policy 1978-79 :—

- (i) Against S. No. 35, "Molasses", the existing provision made in column 3 shall be substituted as under :—

"Export will be allowed under OGL-3 on production of clearance certificate issued by the State Commis-

sioner of Excise of the State in which the product to be exported has been produced."

- (ii) Against S. No. 36 "Ethyl Alcohol or rectified Spirit of any proof degree, whether denatured or not" the existing provision made in column 3 shall be substituted as under :—

"Export will be allowed under OGL-3 on production of clearance certificate issued by the State Commissioner of Excise of the State in which the product to be exported has been produced."

3. Export of products mentioned in paragraph 2(i) and (ii) above will be allowed only for shipments to be made on or before 31st March, 1979, without any grace period whatsoever and no export shall be allowed for shipment to be made after 31st March, 1979 even in fulfilment of firm commitments, if any, claimed to have been made on or before 31st March, 1979.

K. V. SESHADRI, Chief Controller
of Imports & Exports